



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1946 (श०)

(सं० पटना 175) पटना, शुक्रवार, 7 मार्च 2025

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

4 मार्च 2025

सं० 04/द०स्वा०वि०-35-01/2024-367(4)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह नियमावली "बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।—इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, :-

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना;

(iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना;

(v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग; तथा

3. संवर्ग का गठन।—दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा, समय-समय पर, स्वीकृत की जाय।

4. संवर्ग का पदसोपान।—

(1) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी :-

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	दंत स्वास्थ्य विज्ञानी	
2	प्रथम सोपान	वरीय दंत स्वास्थ्य विज्ञानी	

- (2) उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन, बैंड ग्रेड-पे एवं पे लेवल वही होंगे जो सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित किए जाय।
- (3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से उक्त पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी स्वतः इस संवर्ग के समकक्ष स्तर के पद पर कार्यरत समझे जाएंगे।

5. भर्ती।—इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (दंत स्वास्थ्य विज्ञानी) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. अर्हताएँ।—

- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 10+2 (जीव विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो)।
- (ii) संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थ्य विज्ञानी(डेंटल हाईजिनिस्ट) में 02 वर्षीय डिप्लोमा।
- (iii) बिहार राज्य दंत परिषद् में निबंधित डेंटल हाईजिनिस्ट।

(2)दंत स्वास्थ्य विज्ञानी संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित अध्यायचना वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ तिथि माना जायेगा।

7. भर्ती की प्रक्रिया।—

- (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार अध्यायचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।
 - (2) अध्यायचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।
 - (क) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पूर्णांक — 75 अंक
 - (ख) कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों/संस्थानों तथा गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकायों के नियंत्रणाधीन) अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक, अधिकतम 25 अंक। —25 अंक
- (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा।)

कुल — 100 अंक

टिप्पणी :- (क) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा—यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $60 \times 0.75 = 45$ अंक दिये जायेंगे।

- (3) कार्यानुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में प्राचार्य एवं अधीक्षक तथा अतिविशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा।
- (4) संविदा पर कार्यरत अभ्यर्थियों के कार्यानुभव एवं संविदा अवधि के समतुल्य अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ उसी पद पर नियमित नियुक्ति में देय होगा, जिस पद पर अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत रहे हो।
- (5) आयोग, मेधासूची तैयार करेगा एवं अध्यायचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच किए जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कराते हुए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।
- (6) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. परीवीक्षा अवधि।—सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी एक वर्ष तक परीवीक्षाधीन रहेंगे। परीवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकार ऐसे दंत स्वास्थ्य विज्ञानी को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. विभागीय परीक्षा।—दंत स्वास्थ्य विज्ञानी को राजस्व पर्यद, बिहार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा केविषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण नियमानुसार राजस्व पर्यद, बिहार द्वारा अवधारित किया जायेगा।

10. सम्पुष्टि।—परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की सेवा सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

11. वरीयता।—दंत स्वास्थ्य विज्ञानी की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

12. प्रोन्नति।—

- (1) सेवा में सम्पुष्ट दंत स्वास्थ्य विज्ञानी को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए एवं वरीयता—सह—योग्यता के आधार पर वरीय दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
- (2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा, समय—समय पर, अवधारित 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।
- (3) सरकार द्वारा, समय—समय पर, निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्रि या पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

13. विभागीय प्रोन्नति समिति।—विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नतियों विचारणीय होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

14. आरक्षण।—सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय—समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

15. अवशिष्ट मामले।—इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

16. शंकाओं का निराकरण।—यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

17. कठिनाई का निराकरण।—यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण विधि विभाग के परामर्श से ऐसे आदेश द्वारा कर सकेगा जो उस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

18. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय—समय पर निर्गत सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त संकल्प, आदेश अनुदेश इत्यादि और नियमावली, के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

4 मार्च 2025

सं० 04/द०स्वा०वि०-35-01/2024-367(4) अधिसूचना सं० 367(4) दिनांक 04.03.25 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत—संविधान के अनुच्छेद— 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

The 4th March 2025

No. 4/द0स्वा0वि0-35-01/2024/367(4)—In exercise of powers conferred by the proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate appointment, promotion and service conditions in the Bihar Dental Hygienist Cadre under the Health Department:-

1. Short title, extent & commencement.-

- (1) These Rules may be called as the "Bihar Dental Hygienist Cadre Rules, 2025".
- (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Definitions.- In these Rules, unless the subject or context otherwise require:-

- (i) 'Government' means the Government of Bihar;
- (ii) 'Department' means the Health Department;
- (iii) 'Commission' means Bihar Technical Service Commission Patna;
- (iv) 'Appointing Authority' means the Director-in-Chief, Health Services, Bihar, Patna; and
- (v) 'Cadre' means the Bihar Dental Hygienist Cadre,

3. Constitution of cadre.- The cadre of Dental Hygienist shall be State level. In this cadre, the number of posts in each grade and total number of posts of the cadre shall be such as the Government may sanction from time to time.

4. Hierarchy of the cadre.-(1) The composition of the cadre shall be as follows:-

Sl. No.	Category	Name of Post	Remarks
1.	Basic Category	Dental Hygienist	
2.	First Chain	Senior Dental Hygienist	

- (2) The pay, band grade pay and pay level of all the above categories shall be the same as prescribed by the Government as may be determined by the Government from time to time.
- (3) The employees appointed and working on the above posts before coming into force of these rules shall automatically be deemed to be working on posts of equivalent level in this cadre.

5. Recruitment.- The appointment in this cadre shall be, made on the Post of basic category (Dental Hygienist) on the basis of recommendation of the Commission.

6. Qualifications.-

- (i) 10+2 (with Biology as a subject have been) from a recognized University/Board.
- (ii) 02 Years Diploma in Dental Hygienist from an Institute recognized by the Union or the State Government of Bihar or any other State Government.
- (iii) Dental Hygienist registered with the Bihar State Dental Council.

(2) The minimum age limit for direct recruitment to the Dental Hygienist cadre shall be 18 years and the maximum age limit shall be as determined by the Government, from time to time, category-wise for reservation. The 1st August of the respective requisition year shall be considered as the cut-off date for determination of age.

7. Procedure of recruitment.-

- (1) The appointing authority shall, after calculating the vacancies as on 1st April of the year and after getting the roster cleared, send the requisition for reservation category wise to the commission by 30th April of the year.

- (2) The commission on the requisition shall advertise the vacancies and invite application forms from eligible candidates. After written competitive examination and work experience the Candidates shall be selected. :-
- (a) Full marks for the written competitive Examination- - 75marks
- (b) Experience Marks:-For contractual work in State Government hospitals/Institutions of Bihar and Non Private hospital (under control of Central Government, Panchayati Raj institutions, and urban local bodies) located in Bihar. 5 marks/year shall be given for working experience on same post while working in above mentioned hospitals/Institutions. Maximum 25 Marks (Number of working days as part of an year will be multiplied by 5 and then after divided by 365, shall be added as proportional marks) - 25 marks
- Total -100 marks

Note -(a) The marks to be given to a candidate for the marks obtained in the competitive examination will be determined by the multiplying the percentage of total marks obtained in the said competitive examination by a multiple of 0.75. For example, if a candidate has obtained 60% marks in the competitive examination, then he will be given $60 \times 0.75 = 45$ marks respectively.

- (3) The certificate of work experience issued by Civil Surgeon of the concerned district, Principal of Medical College, Superintendent of Medical College and Hospital and director in case of Superspeciality Hospital will be acceptable.
- (4) The benefit of relaxation in maximum age limit equivalent to the work experience and contract period of the candidates working on contract shall be admissible in case of regular appointment on the same post on which the candidate have been working on contract.
- (5) The Commission will prepare the merit list and send the reservation category wise recommendation to the Department in accordance with the requisitioned vacancies. After verification of the certificates of the recommended candidates, the appointing authority will conduct health check-up, antecedents verification etc. and make the appointment following the appointment related guidelines issued by the Government (General Administration Department) from time to time.
- (6) It will be necessary to comply with the instructions issued by the Government (General Administration Department) from time to time regarding the process of appointment after the recommendation of the Commission.

8. Probation Period.- After appointment, candidates shall be under one year of probation period. The probation period may be extended for one more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not found satisfactory during the extended period also, then the Appointing Authority may remove such Dental Hygienist from the service.

9. Departmental Examination.- The Dental Hygienist shall have to pass the Departmental Examination conducted by the Board of Revenue Bihar. The syllabus of the Departmental Examination shall be determined by the Board of Revenue Bihar.

10. Confirmation.- On service being satisfactory during the probation period and passing of departmental examination, a Dental Hygienist may be confirmed by the appointing authority.

11. Seniority.- The inter-se seniority of Dental Hygienist shall be determined according to the merit list prepared finally by the Commission.

12. Promotion.-

- (1) Subject to availability of vacancies, a confirmed Dental Hygienist shall be considered to be promoted on the chain of posts of promotion mentioned in the Appendix of these Rules according to seniority-cum-merit.
- (2) For promotion, compliance of instructions regarding KALAWADHI, issued by the Government, from time to time, shall be necessary.
- (3) Compliance of instructions issued by the Government, from time to time, regarding promotion and Character Roll/PAR, allegation, departmental proceedings/criminal proceedings, etc. shall be necessary at the time of consideration of promotion.

13. Departmental Promotion Committee.- Promotions will be considerable on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by a separate order by the Department.

14. Reservation.- Compliance of Reservation Act of the Government and reservation roster issued by the Government, from time to time, for direct recruitment as well as promotion shall be necessary.

15. Residue matters.- For subjects for which provisions have not been made in these Rules, provisions of relevant Codes/Rules/Resolutions/Instructions of the Government shall be applicable.

16. Removal of doubts.- If there is any doubt arises in the interpretation of any provision of these Rules, the matter shall be referred to the Department and in this respect the decision of the Department, after consultation of the Law Department shall be final.

17. Removal of difficulties.- If any difficulty arises in the implementation of any provision of these Rules, then the Department with the Law Department, may remove such difficulty by an order not inconsistent with the provisions of these Rules.

18. Repeal & Savings.-

- (1) The resolutions, orders, instructions, etc issued by the Department, from time to time, with respect to this cadre are being repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any work done any action taken under the said Resolutions, orders, instruction etc and the said Rules, shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on date on which such work was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar,

(Sd) Illegbele,

Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 175-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>